

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258039
SG-DL-E-18102024-258039असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254]	दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 14, 2024/आश्विन 22, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 216
No. 254]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 2024/ASHVINA 22, 1946	[N. C. T. D. No. 216

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राष्ट्रीय कैडेट कोर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24, जुलाई 2024

सं.एफ. 9(88) /एओ-एनसीसी/आरआर/एक्स-कैडर/सीएच/2023 / 561:- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा पुष्टि की गई भाक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस सरकार की अधिसूचना सं एफ.214/87 एस.II दिनांक 10.06.1987 का अधिक्रमण करते हुए इस प्रकार के अधिक्रमण से पूर्व में किए गए या किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर उप राज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एतद् द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर विभागए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार में मल्टी-टास्किंग स्टाफ(सुरक्षा) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। अर्थात: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय कैडेट कोर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, मल्टी टास्किंग स्टाफ (सुरक्षा)भर्ती नियमावली 2023 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका बर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, उनका बर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति आर्य- सीमायोग्यतायें इत्यादि :-** उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता:-** ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है;

या

(ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या अनुबंध कर चुका है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है / हैं किसी उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दी जा सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।

6. **बचाव:-** इन नियमों कि किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्धित किए जाने के लिए आरक्षण अपेक्षित आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1	पद का नाम	मल्टी टास्किंग स्टाफ (सुरक्षा) #सक्षम प्राधिकारी से नाम करण में परिवर्तन की अनुमोदन के अधीन।
2	पदों की संख्या	32* (2023) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, गैर-मंत्रालयी, अराजपत्रित, समूह-'सी'
4	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	वेतन मैट्रिक्स कास्तर -1 (18000-56900 रुपये)
5	चयन पद है या गैर चयन पद	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष * (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारी के लिए 40 वर्ष तक की छूट) नोट: आयु सीमा निर्धारण हेतु अंतिम तिथि डी.एस.एस.बी./सक्षम प्राधिकारी द्वारा विज्ञापित होगी। *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाने वाले पद के मामले में, आयु सीमा 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होगी।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं।	मान्यता प्राप्त बोर्ड/ यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास।
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नतियों के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

10	भर्ती की विधि; सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / समावेश द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली पदों का प्रतिशत।	100% सीधी भर्ती द्वारा
11	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ समावेशद्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अवशोषण किया जाना चाहिए।	लागू नहीं
12	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना	समूह-'सी' विभागीय पुष्टिकरण समिपुष्टि पर विचार करने के लिए 1. अतिरिक्त महानिदेशक (रा.कै. को.) - अध्यक्ष 2. वि. निदेशक/अतिरिक्त निदेशक (समाज कल्याण) - सदस्य 3. उप निदेशक (शिक्षा निदेशालय) - सदस्य 4. उप सचिव (जी. ए. डी.) - सदस्य नोट: विभागीय पुष्टि समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा यदि विभागीय पुष्टि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पुष्टि समिति के किसी अन्य सदस्य से कनिष्ठ हो।
13	जिन परिस्थितियों में भर्ती को लागू करने में यूपीएससी से परामर्श किया जाना चाहिए	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर

मेजर जनरल एसपी विश्वासराव, एडीजी/एचओडी, एनसीसी

NATIONAL CADET CORPS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th July, 2024

No.F.9(88)/AO-NCC/RR/Ex-Cadre/CH/2023/561:- In exercise of the powers confirmed by provision to Article 309 of the Constitution of India and in supersession of Notification No.F.2(14)/87-S.II, dated 10.06.1987 of this Government, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff (Security) in National Cadet Corps Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

- Short title and Commencement:-** (i) These rules may be called the National Cadet Corps Department, Government of National Capital Territory of Delhi, Multi Tasking Staff (Security), Recruitment Rules 2023.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- Number of Posts, its classification and Pay Level in the Pay matrix:-** The number of said posts, its classification and Level in Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- Method of Recruitment, Age Limit, Qualification etc.:-** The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualifications: - No Person -

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;
or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person:
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to the such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may be order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving** –Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, Schedules Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTI TASKING STAFF (SECURITY) IN R/O
NCC DEPARTMENT, GNCT OF DELHI SCHEDULE**

1	Name of the Post	Multi Tasking Staff(Security)# #Subject to the approval of change in nomenclature from the competent authority
2	Number of Post	32*(2023) *Subject to variation dependent on work-load.
3	Classification	General Central Service Group-‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4	Pay Level in the Pay Matrix	Level-1(Rs. 18,000-56,900/-) of the Pay Matrix.
5	Whether Selection or Non Selection Post	Not Applicable.
6	Age limit for Direct Recruits	18-25 years* (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled up by all-India Open Competition, the age limit would be between 18 year and 27 years.
7	Educational & other qualifications required for direct recruits.	Qualification from a recognized Board/ University.
8	Whether Age & Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Not Applicable.

9	Period of probation, if any	Two Years.
10	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by Deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100 % by Direct Recruitment.
11	In case of recruitment by Promotion / Deputation/ absorption grades from which Promotion/deputation/absorption to be made.	Not Applicable.
12	If a DPC exists, what is its Composition	<p>Group "C" Departmental Confirmation Committee for considering confirmation cases:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Director General, NCC - Chairman 2. Spl.Director/Addl. Director (Social Welfare) - Member 3. Dy. Director (Education) - Member 4. Dy. Secretary (GAD) - Member <p>Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Confirmation Committee.</p>
13.	Circumstances in which U.P.S.C. to be consulted in making Recruitment	Not Applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor

National Capital Territory of Delhi

MAJ. GEN. SP VISHWASRAO, Ad. D.G. HD,NCC